

खानवल म स्वास्थ्य पर नाइट शा का हुआ आयोजन

■ डॉ. गणेश वेरनेकर ने कार्यक्रम के महत्व एवं इसके फायदे की लोगों को दी जानकारी

सिलवासा 06 नवंबर। दादरा नगर हवेली के खानवेल स्थित उप जिला अस्पताल खानवेल द्वारा प्रचार विभाग सुरत के सहयोग से दानह स्वास्थ्य निदेशक डॉ. वी. के. दास के निर्देशन में खानवेल चार रास्ता पर स्वास्थ्य पर नाइट शो का आयोजन किया गया। 6:30 बजे से शुरू होकर 8 बजे तक चले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बाइकर्स, हॉकर्स, फेरीवाले एवं आम जनता ने उपस्थित रहकर इसका लाभ लिया। इस कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर खानवेल पीएसआई छाया टंडेल, पीएसआई जिज्ञेशभाई, खानवेल अस्पताल के इंचार्ज डॉ. गणेश वेरनेकर, पीआईबी के सहायक निदेशक नानाभेसरम, फ़िल्ड पब्लिसिटी ऑफिसर ए. जी.



सोनेरी की उपस्थिति रही। इस स्वास्थ्य नाइट शो में बेटी बचाओ, स्वच्छता अभियान, साफ-सफाई, मलेरिया, डेंगू, फ़ाइलेरिया तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और इसका उत्साहपूर्वक समर्थन किया। इस अवसर डॉ. गणेश वेरनेकर ने कार्यक्रम का महत्व और इसके

फायदे के बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से किये जा रहे प्रयासों में सहयोग मांगा। उन्होंने परिवार और देश के विकास के लिए बेटी का महत्व समझाया। साथ ही बेटी बचाओं के लिए समुदाय की भागदारी सराहना की। उन्होंने गर्भावस्था के दौरान बच्चे के लिंग का निर्धारण करने पर रोक लगाने के अधिनियम के महत्व के बारे में भी जानकारी दी।

इसके साथ ही उन्होंने मातृत्व समृद्धि योजना (5,000 ₹.) बेटी बचाओ (40,000 ₹. बॉन्ड) और जननी सुरक्षा योजना (700 ₹.) के बारे में भी जानकारी दी। गणेश वेरनेकर प्रसूति अस्पताल अथवा सब सेंटर्स में कराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। साथ ही आपातकालीन स्थिति में 108 एम्बुलेंस का इस्तेमाल रात्रि के दौरान भी करने के लिए निवेदन किया।